



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1071]
No. 1071]नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, नवम्बर 27, 2003/अग्रहायण 6, 1925
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 27, 2003/AGRAHAYANA 6, 1925

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2003

का.आ. 1365(अ).—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में यथाउल्लिखित संस्थाओं का एतद्द्वारा अनुमोदन करती है तथा उक्त सारणी के कॉलम (3) में यथाउल्लिखित पात्र परियोजनाओं अथवा स्कीमों और उनकी अनुमानित लागत को विनिर्दिष्ट करती है तथा कथित सारणी के कॉलम (4) में ऐसी लागत की अधिकतम राशि को भी विनिर्दिष्ट करती है जिसे धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाना है, नामतः :—

सारणी

क्रम सं०	संस्था का नाम	परियोजना अथवा स्कीम और उसकी अनुमानित लागत	धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाने वाली लागत की अधिकतम राशि
1.	2.	3.	4.
1.	सदविचार वी०के० रोड, संतराम मंदिर के पीछे नडियाद 387001, खेडा, गुजरात	शल्य चिकित्सा/चिकित्सा उपकरणों पर होने वाले व्यय तथा नेत्र चिकित्सालय चलाना।	कर निर्धारण वर्ष 2004-2005, 2005-06, और 2006-07 अर्थात् केवल तीन वर्ष के लिए 50.00 लाख रु० की कॉर्पस निधि सहित 200.00 लाख रु०

			<p>इस शर्त के आधार पर कि (क) न्यास को प्रमुख स्थलों पर इस आशय से सार्वजनिक सूचनाएं प्रदर्शित करनी चाहिए कि दिए गए लाभ निःशुल्क हैं (ख) संस्था प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष की आय कर विवरणी सहित यह प्रमाणित करते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से रिपोर्ट दाखिल करेगी कि संस्था के मौजूदा रिकार्डों में पर्याप्त रूप से यह प्रदर्शित करते हैं कि कुल लाभार्थियों का 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से आए हुए हैं तथा यह कि उन्हें पूरे लाभ निःशुल्क दिए गए थे।</p>
2.	<p>श्री काची कामकोटि मैडिकल ट्रस्ट, 77, पोन्नूरगम रोड (पश्चिम) आर०एस० पुस्तक, कोयम्बटूर-641002</p>	<p>भवनो का निर्माण, उपकरणों, कम्प्यूटर वाहनों आदि की खरीद तथा संकर नेत्र अस्पताल, गुदूर को चलाना।</p>	<p>निर्धारण वर्ष 2004-2005 और 2005-2006 , 2006-2007 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 947.05 लाख रु० इस शर्त के साथ कि (क) न्यास को प्रमुख स्थलों पर इस आशय से सार्वजनिक सूचनाएं प्रदर्शित करनी चाहिए कि आर्थिक रूप से कमजोर</p>

			वर्गों को दिए गए लाभ निःशुल्क हैं (ख) संस्था प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष की आय कर विवरणी सहित यह प्रमाणित करते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से रिपोर्ट दाखिल करेगी कि संस्था के मौजूदा रिकार्डों में पर्याप्त रूप से यह प्रदर्शित किया गया है कि कुल लाभार्थियों का 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से आया है तथा यह कि उन्हें पूरे लाभ निःशुल्क दिए गए थे।
3.	आदिवासी शिक्षण संस्था, जुन्नार, ताल-जुन्नार, जिला-पुणे	गरीब आदिवासी/कबीलाई लोगों के लिए स्कूलों, छात्रावासों तथा सब वे का निर्माण	कर निर्धारण वर्ष 2004-2005, 2005-2006 और 2006-2007 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 32.60 करोड़ रु०।
4.	नव भारत जागृति केन्द्र, प्रधान कार्यालय, ग्राम बेहरा, पो० आ० वृन्दावन मार्फत चौपारन जिला हजारीबाग-825301 (झारखंड)	निर्धन और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य सहायता योजना	कर निर्धारण वर्ष 2004-2005, 2005-2006 और 2006-2007 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 39.00 लाख रु०
5.	श्री स्वामी विवेकानंद कर्णावती चैरिटेबल ट्रस्ट, धनवन्तरी हास्पिटल, विजय चौक, बापूनगर,	अस्पताल का आधुनिकीकरण तथा संचलन सेवाएं	कर निर्धारण वर्ष 2004-2005, 2005-2006 और 2006-2007 अर्थात् केवल तीन वर्षों के

	अमदावद 380024		<p>लिए 50.00 लाख रू० की कार्पस निधि सहित 170.93 लाख रू० इस शर्त के साथ कि(क) न्यास को प्रमुख स्थलों पर इस आशय से सार्वजनिक सूचनाएं प्रदर्शित करनी चाहिए कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिए गए लाभ निःशुल्क हैं (ख) संस्था प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष की आय कर विवरणी सहित यह प्रमाणित करते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से रिपोर्ट दाखिल करेगी कि संस्था के मौजूदा रिकार्ड पर्याप्त रूप से यह प्रदर्शित करते हैं कि कुल लाभार्थियों का 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से आया था तथा यह कि उन्हें पूरे लाभ निःशुल्क दिए गए थे ।</p>
6.	श्री गुरुवयूरप्पन भजन समाज ट्रस्ट, 291, छठा मुख्य तीसरा क्रॉस सदानंदनगर एन जी ई एफ पूर्व बंगलौर-560038	समाज के कमजोर वर्ग के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	कर निर्धारण वर्ष 2004-2005, 2005-2006 और 2006-2007 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 57.00 लाख रू०
7.	श्री कांची कामकोटि	दृष्टि का उपहार	कर निर्धारण वर्ष 2004-

	पश्चिम बंगाल	परियोजना को चलाना ।	केवल तीन वर्षों के लिए 143.33 लाख रु० जिसमें 10.00 लाख रु० की कार्पस निधि शामिल है ।
9.	महाराष्ट्र अकादमी ऑफ इंजीनियरिंग एंड एजुकेशनल रिसर्च, यशवन्त राव चव्हाण ग्रामीण अस्पताल, क्रम सं० 124, पौड रोड, कोथुड पुणे- 411038	उपस्करों की खरीद और 500 पलंगों वाले यशवन्त राव चव्हाण ग्रामीण अस्पताल को चलाना ।	कर निर्धारण वर्ष 2004-2005, 2005-2006 और 2006-2007 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 85.75 करोड़ रु० जिसमें 64.00 करोड़ रु० की कार्पस निधि शामिल है ।
10.	श्री संतराम जनसेवा ट्रस्ट, श्री संतराम मंदिर, नाडियाद 387001, जिला खेड़ा गुजरात ।	श्री संतराम जनसेवा ट्रस्ट के चिकित्सा और शैक्षणिक तथा अन्य सहित निर्माण कार्य	कर निर्धारण वर्ष 2004-2005, 2005-2006 और 2006-2007 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 250.00 लाख रु० जिसमें 50.00 लाख रु० की कार्पस निधि शामिल है बशर्ते कि (क) न्यास प्रमुख स्थलों पर सार्वजनिक सूचनाएं प्रदर्शित करें कि प्रदान किए गए लाभ निःशुल्क हैं (ख) संस्था प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष की आय कर विवरणी सहित यह प्रमाणित करते हुए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से रिपोर्ट फाइल करेगी कि संस्था के मौजूदा रिकार्डों में पर्याप्त

			रूप से यह प्रदर्शित किया गया है कि कुल लाभार्थियों का 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से आया है तथा यह कि उन्हें पूरे लाभ निःशुल्क दिए गए थे।
11.	बोस्को ग्रामीण विकास केन्द्र द्वारा सेंट जोन्स चर्च भिगर कैम्प, अहमदनगर, महाराष्ट्र 414002	वाटरशेड विकास परियोजना	कर निर्धारण वर्ष 2004-2005, 2005-2006 और 2006-2007 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 124.43 लाख रु०)
12.	आशुराली विवेकानंद स्मृति सघ, ग्राम आशुराली, जाकधर साधुरहट जिला 24 परगना (दक्षिणी) पश्चिम बंगाल	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण उपस्करों की खरीद, आदि	कर निर्धारण वर्ष 2004-2005, अर्थात् केवल एक वर्ष के लिए 4.00 लाख रु०)
13.	समकृष्ण मिशन भवन, स्टाफ-क्वार्टर, स्टुडेंट्स होम, नया नम्बर 66 (पुराना नं०)	ऊपरी वाटर टैंक आदि का निर्माण।	कर निर्धारण वर्ष 2004-2005, 2005-2006 और 2006-2007 अर्थात्

	101) थाना शिवस्वामी सलाई, माइलापोर चेन्नई 600004		केवल तीन वर्षों के लिए 5.28 करोड़ ₹0
14.	अग्रगति, ग्राम कालीकाला, डाकघर राशपुर, थाना- आम्टा, जिला हावड़ा- 711401, पश्चिम बंगाल	स्कूलों छात्रावासों का निर्माण, फर्निचर अथवा फिक्सचरों, कम्प्यूटरों, किताबों, उपस्करों, स्कूल बस आदि की खरीद और परियोजना चलाना।	कर निर्धारण वर्ष 2004- 2005, 2005-2006 और 2006-2007 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 5.44 करोड़ ₹0 जिसमें 2.20 करोड़ ₹0 की कार्पस निधि शामिल है।
15.	अपेक्षाकृत अधिक उन्नति के लिए सोसायटी का भवन निर्माण नेटवर्क, लिंगसिपाई ग्राम, द्वारा पोस्ट बॉक्स नं० 138, पोस्ट चूराचांदपुर, पिन 795128, मणिपुर राज्य।	जातीय युद्ध शरणार्थियों के लिए निम्न लागत के मॉडल घरों का निर्माण	कर निर्धारण वर्ष 2004- 2005 और 2005-2006 अर्थात् केवल दो वर्षों के लिए 114.75 लाख ₹0 बशर्ते के घरों के निर्माण के बाद भूमि हिताधिकारियों को अंतरित कर दी गई हो।
16.	बाल एवं समाज कल्याण सोसायटी, ग्राम मार्कण्डाचक डाकघर विष्णुपुर बाजार, थाना- सबोंग, जिला मिदनापोर (पश्चिम बंगाल) 721144	(क) शिक्षा कार्यक्रम (ख) स्वास्थ्य कार्यक्रम और (ग) वृद्धावस्था गृह का निर्माण	कर निर्धारण वर्ष 2004- 2005, 2005-2006 अर्थात् केवल दो वर्षों के लिए 225.23 लाख ₹0

2. यह अधिसूचना कथित सारणी की क्रम सं० 12 पर उल्लिखित परियोजना अथवा स्कीम के संबंध में कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 के संबंध में एक वर्ष की अवधि के लिए और क्रम सं० 15 और 16 पर उल्लिखित परियोजनाओं अथवा स्कीमों के संबंध में कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 और 2005-2006 के संबंध में दो वर्षों की अवधि के लिए तथा क्रम सं० 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 और 14 पर उल्लिखित परियोजनाओं अथवा स्कीमों के सदर्भ में निर्धारण वर्ष 2004-2005, 2005-2006 तथा 2006-2007 के संबंध में तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी।

[सं. 317/2003/फा. सं. एन.सी.-240/2003]

ए. जे. मजूमदार, सचिव (राष्ट्रीय समिति)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2003

S.O. 1365(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government, on the recommendations of the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, hereby approves the institutions mentioned in column (2) of the Table below and specifies the eligible projects or schemes and the estimated cost thereof as mentioned in column (3) of the said Table and also specifies in the column (4) of the said Table, the maximum amount of such cost which may be allowed as deduction under the said section 35AC, namely:-

TABLE

Serial Number	Name of the Institution	Project or scheme and estimated cost thereof	Maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35AC
(1)	(2)	(3)	(4)

1	Sadvichar Samiti, V.K.Road, Behind Santram Temple, Nadiad 387001, District Kheda, Gujarat.	Expenses towards surgical /medical instruments and running of the Netra Chikitsalaya Dispensary.	Rs. 200.00 lakhs including a corpus fund of Rs. 50.00 lakhs for Assessment Years 2004- 2005, 2005-06 and 2006- 07 i.e. for three years only subject to the condition that (a) the trust should display public notices in prominent places stating that the benefits provided are free of cost (b) the institution would file a report from the Chartered Accountant alongwith return of income of each assessment year certifying that the existing records of the Institution adequately demonstrate that 50% or more of the total beneficiaries came from the economically weaker sections of the society and that full benefits were rendered to them free of cost.
---	--	--	--

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 2. | Sri Kanchi Kamakoti Medical Tust, 77, Ponnurangam Road,(West), R.S. Puram, Coimbatore-641002. | Construction of buildings, purchase of equipments, computers vehicles etc and running of Sankara Eye Hospital, Guntur | Rs. 947.05 lakhs for Assessment years 2004-2005, 2005-06 and 2006-2007 i.e. for three years only subject to the condition that (a) the trust should display public notices in prominent places stating that the benefits are provided to economically weaker sections free of cost (b) the institution would file a report from the Chartered Accountant alongwith the return of income of each assessment year certifying that the existing records of the Institution adequately demonstrate that 50% or more of the total beneficiaries came from the economically weaker sections of the society and that full benefits were rendered to them free of cost. |
| 3. | Adivasi Shikshan Sanstha, Junnar, Tal-Junnar, District Pune. | Construction of schools, hostels staff quarters, sub-way for the poor Adivasi/Tribals. | Rs. 32.60 crores for Assessment Years 2004-2005, 2005-2006 and 2006-2007 i.e. for three years only. |
| 4. | Nav Bharat Jagriti Kendra, Head Office Village Bahera, PO Brindavan Via Chouparan, District Hazaribag-825301 (Jharkhand) | Education and Health support Scheme for Children of poor and socially marginalised class. | Rs. 39.00 lakhs for Assessment Years 2004-2005, 2005-2006 and 2006-2007 i.e. for three years only. |

- | | | | |
|----|---|--|--|
| 5. | Shri Swami Vivekanand
Karnavati Charitable
Trust, Dhanwantri
Hospital, Vijay Chowk,
Bapunagar, Amdavad-
380024. | Modernization of
Hospital and Mobile
services | Rs. 170.93 lakhs
including a corpus
fund of Rs. 50.00
lakhs for Assessment
Years 2004-2005,
2005-2006 and 2006-
2007 i.e. for three
years only subject to
the condition that (a)
the trust should
display public notices
in prominent places
stating that the
benefits are provided
free of cost to
economically weaker
sections (b) the
institution would file a
report from the
Chartered Accountant
alongwith the return of
income of each
assessment year
certifying that the
existing records of the
Institution adequately
demonstrate that 50%
or more of the total
beneficiaries came
from the economically
weaker sections of the
society and that full
benefits were rendered
to them free of cost. |
| 6. | Sree Guruvayurappan
Bhajan Samaj Trust, 291, 6 th
Main 3 rd Cross
Sadanandnagar, NGEF East,
Bangalore – 560038. | Vocational training
programme for weaker
sections of society | Rs. 57.00 lakhs for
Assessment Years 2004-
2005, 2005-2006 and
2006-2007 i.e. for three
years only. |
| 7. | Sri Kanchi Kamakoti
Medical Trust, 77, West
Ponnurangam Road, R.S.
Puram, Coimbatore – 641
002. | Gift of vision | Rs. 1007.00 lakhs (
corpus fund) for
Assessment Years 2004-
2005, 2005-2006 and
2006-2007 i.e. for three
years only subject to the
condition that (a) the trust
should display public |

notices in prominent places stating that the benefits are provided free of cost to economically weaker sections (b) the institution would file a report from the Chartered Accountant alongwith the return of income of each assessment year certifying that the existing records of the Institution adequately demonstrate that 50% or more of the total beneficiaries came from the economically weaker sections of the society and that full benefits were rendered to them free of cost.

8. Pranab Kanya Sangha, P.O. HRIDAYPUR, Kolkata - 700127, West Bengal. Construction building, purchase of furniture, Books, sewing machine etc and running of the project. Rs. 143.33 lakhs including a corpus fund of Rs. 10.00 lakhs for Assessment Years 2004-2005, 2005-2006 and 2006-2007 i.e. for three years only
9. Maharashtra Academy of Engineering and Educational Research's, Yashwantrao Chavan Rural Hospital, S.No. 124, Paud Road, Kothrud, Pune 411038 Purchase of equipments and running of 500 bedded Yashwantrao Chavan Rural Hospital. Rs. 85.75 crores including a corpus fund of Rs. 64.00 crores for Assessment Years 2004-2005, 2005-2006 and 2006-2007 i.e. for three years only.
10. Shree Santram Janseva Trust, Shree Santram Mandir, Nadiad 387001, District Kheda, Gujarat. Medical and educational and other relief works of Shree Santram Janseva Trust. Rs. 250.00 lakhs including a corpus fund of Rs. 50.00 lakhs for Assessment Years 2004-2005, 2005-2006 and 2006-2007 i.e. for three years only subject to the condition that (a) the Tru

should display public notices in prominent places stating that the benefits are provided free of cost to economically weaker sections (b) the institution would file a report from the Chartered Accountant alongwith the return of income of each assessment year certifying that the existing records of the Institution adequately demonstrate that 50% or more of the total beneficiaries came from the economically weaker sections of the society and that full benefits were rendered to them free of cost.

- | | | | |
|-----|--|---|--|
| 11. | Bosco Gramin Vikas Kendra, C/o St. John's Chruch, Bhingar Camp, Ahmednagar, Maharashtra 414002 | Watershed Development Project. | Rs. 124.43 lakhs for Assessment Years 2004-2005, 2005-2006 and 2006-2007 i.e. for three years only. |
| 12. | Ashurali Vivekananda Smriti Sangha, Village Ashurali, P.O. Sadhurhat, District 24 Parganas (South), West Bengal. | Construction of Vocational Training Centre, purchase of equipments etc. | Rs. 4.00 lakhs for Assessment Year 2004-2005 i.e. for one year only. |
| 13. | Ramakrishna Mission Students' Home, New No.66, (old no.101), P.S. Sivasamy Salai, Mylapore, Chennai- 600004. | Construction of building, staff quarters, overhead water tank etc. | Rs. 5.28 crores for Assessment Years 2004-2005, 2005-2006 and 2006-2007 i.e. for three years only. |
| 14. | Agragati, Village Kalikata, PO Rashpur, P.S. - Amta, District - Howrah - 711401, West Bengal. | Construction of schools, hosteis, purchase of furniture or fixture, computers, books, equipments, school bus etc, and running of the project. | Rs. 5.44 crores including a corpus fund of Rs. 2.20 crores for Assessment Years 2004-2005, 2005-2006 and 2006-2007 i.e. for three years only |

- | | | | |
|-----|--|--|---|
| 15. | Society's Abbatial Network for Greater Advancement, Lingsiphai village, C/o Post Box No. 138, Post Churachandpur, Pin 795128, Manipur State. | Construction of low cost Model houses for ethnic war Refugees. | Rs. 114.75 lakhs for Assessment Years 2004-2005 and 2005-2006 i.e. for two years only subject to the condition that land should be transferred to the beneficiaries after construction of the houses. |
| 16. | Child and Social Welfare Society, Village Markandachak PO Bishnupur Bazar, PS Sabong, District Midnapore (West Bengal) 721144. | (a) Education Programme (b) Health Programme and (c) Construction of old Age Home. | Rs. 225.23 lakhs for Assessment Years 2004-2005 and 2005-2006 i.e. for two years only. |

2. This notification shall remain in force for a period of one year in relation to assessment year 2004-2005 in respect of project or scheme mentioned at serial number 12 and for a period of two years in relation to assessment years 2004-2005 and 2005-2006 in respect of projects or schemes mentioned at serial number 15 and 16 and for a period of three years in relation to assessment years 2004-2005, 2005-2006 and 2006-2007 in respect of projects or schemes mentioned at serial numbers 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13 and 14 of the said Table.

[No. 317/2003/F.No. NC-240/2003]

A. J. MAJUMDAR, Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2003

का.अ. 1366(अ).- जबकि, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 19 मई, 1997 की अधिसूचना सं० सां० आ० 388 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने सेवा मंडल मेघराज, पो० आ० कासना जिला-साबरकांठा, गुजरात 383350 कासना, जिला साबरकांठा, गुजरात में अस्पताल के अंतरंग वार्ड का निर्माण, बालवाड़ी, सिंचाई के टैंक तथा उपकरण और अस्पताल के लिए वाहन की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1998-1999 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 8 पर विनिर्दिष्ट किया था; तथा जिसे बाद में दिनांक 29 मार्च, 2000 की अधिसूचना सं०

सां० आ० 296 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेवा मंडल मेघराज, पो० आ० कासना जिला-साबरकांठा, गुजरात 383350 द्वारा ग्राम कासना, जिला साबरकांठा, गुजरात में अस्पताल के अंतरंग वार्ड का निर्माण, बालवाड़ी, सिंचाई के टैंक और उपकरण और अस्पताल के लिए वाहन की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए केवल पैंतालीस लाख उनसाठ हजार की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 318/2003/फा. सं. एन.सी.-240/2003]

ए. जे. मजूमदार, सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2003

S.O. 1366(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.388(E) dated the 19th May, 1997, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 8, for construction of Indoor Ward in Hospital, Balwadi, Irrigation Tanks and Equipments and vehicles for hospital at Village Kasna, District Sabarkantha, Gujarat, by Seva Mandal Meghraj, P.O.Kasna, District – Sabarkantha, Gujarat-383350, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1998-1999 and which was extended further vide notification number S.O.296(E) dated the 29th March, 2000 as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2001-2002;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of construction of Indoor Ward in Hospital, Balwadi, Irrigation Tanks and Equipment and vehicles for hospital at Village Kasna, District Sabarkantha, Gujarat, which is being carried out by Seva Mandal Meghraj, P.O. Kasna, District – Sabarkantha, Gujarat-383350 at the estimated cost of rupees forty-five lakhs fifty-nine thousand only, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the assessment year 2004-2005.

[No. 318/2003/F.No. NC-240/2003]

A. J. MAJUMDAR, Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2003

का.आ. 1367(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 12 मार्च, 1998 की अधिसूचना सं० सां० आ० 198 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने श्री अनंत लाल त्रिभोवनवास शाह आयुर्वेदिक सार्वजनिक हास्पिटल, लाल बाजार, 50टी० शाह आयुर्वेदिक हास्पिटल मार्ग, भरुच- 392001 गुजरात द्वारा जावेश्वर गुजरात में आयुर्वेदिक अस्पताल भवन के आधुनिक सुविधाओं सहित निर्माण की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1998-1999 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 7 पर विनिर्दिष्ट किया था; तथा जिसे बाद में दिनांक 26 मई, 2000 की अधिसूचना सं० सां० आ० 506 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अनन्त लाल त्रिभोवनदास शाह आयुर्वेदिक सार्वजनिक हास्पिटल, लाल बाजार, 27.0टी0शाह आयुर्वेदिक हास्पिटल मार्ग, भरुच-392001 गुजरात द्वारा जादेश्वर गुजरात में आयुर्वेदिक अस्पताल भवन के आधुनिक सुविधाओं सहित निर्माण की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए एक करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित दो करोड़ सत्तर लाख रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. 319/2003/फ. सं. एन.सी.-240/2003]

ए. जे. मजूमदार, सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2003

S.O. 1367(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.198(E) dated the 12th March, 1998, issued under sub-section (1) of read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 7, for construction of building with modern amenities for Ayurvedic Hospital at Zadeshwar, Gujarat, by Shri Anantlal Tribhovandas Shah Ayurvedic Sarvajanik Hospital, Lal Bazar, A.T. Shah Ayurvedic Hospital Marg, Bharuch-392001, Gujarat, as eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1998-99 and which was extended further vide notification number S.O.506(E) dated 26th May, 2000 as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2001-2002,

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of construction of building with modern amenities for Ayurvedic Hospital at Zadeshwar, Gujarat, which is being carried out by Shri Anantlal Tribhovandas Shah Ayurvedic Sarvajanik Hospital, Lal Bazar, A.T. Shah Ayurvedic Hospital Marg, Bharuch-392001, Gujarat, at the estimated cost of rupees two crores seventy lakhs plus a corpus fund of rupees one crore only, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the assessment year 2004-2005.

[No. 319/2003/F.No. NC-240/2003]

A. J. MAJUMDAR, Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2003

का.आ. 1368(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की विनांक 21 सितम्बर, 2000 की अधिसूचना सं० सां० आ० 850 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने श्रीमती कमला मेहता दावर स्कूल फॉर वा ब्लाइंड, 160, दादासाहेब फाल्के रोड, मुम्बई-400004 द्वारा मुम्बई, दावर में दृष्टिहीन लड़कियों के लिए स्कूल को चलाने तथा कामकाजी महिलाओं और महाविद्यालय के दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए छात्रावास हेतु भवन निर्माण की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 11 पर विनिर्दिष्ट किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती कमला मेहता दावर स्कूल फॉर वा ब्लाइंड, 160, दादासाहेब फाल्के रोड, मुम्बई-400004 द्वारा चलाई जा रही मुम्बई, दावर में दृष्टिहीन लड़कियों के लिए स्कूल को चलाने और कामकाजी महिलाओं और महाविद्यालय के दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए छात्रावास हेतु भवन निर्माण की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए केवल तीस लाख रुपये की कार्पस निधि सहित एक करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 320/2003/फा. सं. एन.सी.-240/2003]

ए. जे. मजूमदार, सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2003

S.O. 1368(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.850(E) dated the 21st September, 2000, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 11, for construction of building for hostel for visually impaired college students and working women and running of school for visually impaired girls at Dadar, Mumbai, by Smt. Kamla Mehta Dadar School for the Blind, 160, Dadasaheb Phalke Road, Mumbai-400014 as eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2001-2002;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of construction of building for hostel for visually impaired college students and working women and running of school for visually impaired girls at Dadar, Mumbai, which is being carried out by Smt. Kamla Mehta Dadar School for the Blind, 160, Dadasaheb Phalke Road, Mumbai-400014, at the estimated cost of rupees one crore including a corpus fund of rupees thirty lakhs only, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the assessment year 2004-2005.

[No. 320/2003/F.No. NC-240/2003]

A. J. MAJUMDAR, Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2003

1367

का.आ. 1367(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा

35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 14 अगस्त, 2002 की अधिसूचना सं० सां० आ० 857 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने श्री अरबुवा सेवा संघ, डाकखाना भिलोडा, तालुका:भिलोडा, जिला साबरकान्था, गुजरात द्वारा गुजरात, साबरकान्था, भिलोडा में कला मंदिर भवन के निर्माण की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से आरम्भ होने वाले वर्ष से एक वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 1 पर विनिर्दिष्ट किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के एक वर्ष से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को दो वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अरबुदा सेवा संघ, डाकखाना भिलोडा, तालुका:भिलोडा, जिला साबरकान्था, गुजरात द्वारा चलाई जा रही गुजरात, साबरकान्था, भिलोडा में कला मंदिर भवन के निर्माण की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से दो वर्षों की आगे की अवधि के लिए केवल बारह लाख चौदह हजार रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. 321/2003/फा. सं. एन.सी.-240/2003]

ए. जे. मजूमदार, सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2003

S.O. 1369(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.857(E) dated the 14th August, 2002, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 1, for construction of Kala Mandir Building, Bhiloda, Sabarkantha, Gujarat, by Shri Arbuda Seva Sangh, AT & P.O. Bhiloda, Taluka: Bhiloda, District Sabarkantha, Gujarat as eligible project or scheme for a period of one year beginning with assessment year 2003-2004;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond one year;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of two years ;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of construction of Kala Mandir Building, Bhiloda, Sabarkantha, Gujarat, which is being carried out by Shri Arbuda Seva Sangh, AT & P.O. Bhiloda, Taluka: Bhiloda, District Sabarkantha, Gujarat, at the estimated cost of rupees twelve lakhs fourteen thousand only, as an eligible project or scheme for a further period of two years commencing from the assessment year 2004-2005.

35649/03-4

[No. 321/2003/F.No. NC-240/2003]

A. J. MAJUMDAR, Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2003

का.आ. 1370(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 14 अगस्त, 2002 की अधिसूचना सं० सां० आ० 857 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने श्री अर्बुदा सेवा संघ, पो० आ० भिलोदा, तालुका भिलोदा, जिला साबरकांठा, गुजरात द्वारा भिलोदा, साबरकांठा, गुजरात में स्कूल भवन/चारदीवारी के निर्माण, खेल के मैदान तथा भवन क्षेत्र के लिए भूमि विकास की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से आरम्भ होने वाले वर्ष से एक वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 2 पर विनिर्दिष्ट किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के एक वर्ष अधिक चले की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को दो वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अर्बुदा सेवा संघ, पो० आ० भिलोदा, तालुका भिलोदा, जिला साबरकांठा, गुजरात द्वारा भिलोदा, साबरकांठा, गुजरात में चलाई जा रही स्कूल भवन/चारदीवारी के निर्माण, खेल के मैदान तथा भवन क्षेत्र के लिए भूमि विकास की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से दो वर्षों की आगे की अवधि के लिए केवल पच्चीस लाख तेरह हजार रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 322/2003/फा. सं. एन.सी.-240/2003]

ए. जे. मजूमदार, सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2003

S.O. 1370(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.857(E) dated the 14th August, 2002, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 2, for construction of School Building/compound wall, land development for play ground and building area, Bhiloda, Sabarkantha, Gujarat by Shri Arbuda Seva Sangh, AT & P.O. Bhiloda, Taluka: Bhiloda, District Sabarkantha, Gujarat as eligible project or scheme for a period of one year beginning with assessment year 2003-2004;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond one year;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of two years ;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of construction of School Building/compound wall, land development for play ground and building area, Bhiloda, Sabarkantha, Gujarat which is being carried out by Shri Arbuda Seva Sangh, AT & P.O. Bhiloda, Taluka: Bhiloda, District Sabarkantha, Gujarat, at the estimated cost of rupees twenty five lakhs thirteen thousand only, as an eligible project or scheme for a further period of two years commencing from the assessment year 2004-2005.

[No. 322/2003/F.No. NC-240/2003]

A. J. MAJUMDAR, Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2003

का.आ. 1371(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय(राजस्व विभाग) की दिनांक 2 जुलाई, 1996 की अधिसूचना सं० सा०आ०४६९ (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने मारिया सेवा संघ, बिल्ला मारिया, सं० 12, रैस्ट हाऊस रोड, बंगलौर-560001 द्वारा बंगलौर के तीन स्कूलों में मध्याह्न भोजन स्कीम की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1997-1998 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 4 पर विनिर्दिष्ट किया था: जिसे बाद में दिनांक 11 मई, 1999 की अधिसूचना सं० सा०आ० 317 (अ०) के द्वारा निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरम्भ होने वाले वर्ष से दो वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था ; जिसे बाद में दिनांक 20 जून, 2001 की अधिसूचना सं० सा०आ० 552 (अ०) के द्वारा निर्धारण वर्ष 2002-2003 से आरम्भ होने वाले वर्ष से दो वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था ; तथा जिसे बाद में दिनांक 13 जून, 2003 की अधिसूचना सं० सा०आ० 688 (अ०) के द्वारा निर्धारण वर्ष 2004-2005 से आरम्भ होने वाले वर्ष से एक वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था ;

और, जबकि सामाजिक तथा आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को विनिर्दिष्ट करने के लिए 15.00 लाख रुपए की अनुमोदित लागत को बढ़ाकर 30.00 लाख रुपए करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए:-

(क) एतद्वारा मारिया सेवा संघ, विल्ला मारिया, सं012, रेस्ट हाउस रोड, बंगलौर-560001 द्वारा बंगलौर के तीन स्कूलों में मध्याह्न भोजन स्कीम अथवा परियोजना को दिनांक 2 जुलाई, 1996 की कथित अधिसूचना सं0सां0आ0469 में पुनः संशोधन करते हुए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में निम्न प्रकार विनिर्दिष्ट करती है:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रम सं0 5 के सामने कॉलम (4) में समिति तथापि परियोजना की अनुमोदित लागत 15.00 लाख रुपए से बढ़ाकर 30.00 लाख रुपए करती है ; अर्थात् परियोजना की अनुमोदित लागत को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[सं. 323/2003/फ. सं. एन.सी.-240/2003]

ए. जे. मजूमदार, सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2003

S.O. 1371(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.469(E) dated the 2nd July, 1996, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 4, for Mid-day Meal Scheme in three schools of Bangalore, by Maria Seva Sangha, Villa Maria, No.12 Rest House road, Bangalore-560001, as eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1997-1998 which was extended further vide notification number S.O.317(E) dated the 11th May, 1999 for a period of two years beginning with assessment year 2000-2001 which was extended further vide notification number S.O.552(E) dated the 20th June, 2001 for a period of two years beginning with assessment year 2002-2003 and which was extended further vide notification number S.O.688(E) dated the 13th June, 2003 for a period of one year beginning with assessment year 2004-2005;

And, whereas, the National Committee for the Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for enhanced the approved cost of the project from Rs.15.00 lakhs to 30.00 lakhs;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961),-

- (a) hereby specifies the scheme or project of Mid-day Meal Scheme in three schools of Bangalore which is being carried out by Maria Seva Sangha, Villa Maria, No.12 Rest House road, Bangalore-560001 as an eligible project or scheme and further amends the said notification number S.O. 469(E) dated the 2nd July, 1996, to the following effect, namely:-

In the said notification, in the Table against serial number 5, in column (4), the committee, however, enhanced the approved cost of the project from Rs.15.00 lakhs to Rs.30.00 lakhs, i.e., approved cost of the project shall be substituted.

[No. 323/2003/F.No. NC-240/2003]

A. J. MAJUMDAR, Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2003

का.आ. 1372(अ).- जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय(राजस्व विभाग) की दिनांक 19 मई, 1997 की अधिसूचना सं० सा० आ० 388(अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने वात्सल्य आश्रम, 103, मयूरी होम्स, रिंग रोड, कोरटीटापाडू, गुन्टूर, आंध्र प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 5 स्थित पेडाकाकानी, निकट 7 वीं किमी०, गुन्टूर, आंध्र प्रदेश में भवन निर्माण, साज-सज्जा तथा वृद्धों और अनाथों के घरों हेतु वाहनों की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1998-1999 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 19 पर विनिर्दिष्ट किया था तथा जिसे बाद में दिनांक 21 सितम्बर, 2000 की अधिसूचना सं० सा० आ० 868 (अ०) के द्वारा निर्धारण वर्ष 2001-2002 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 उ के उपनियम(5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43)की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वात्सल्य आश्रम, 103, मयूरी होम्स, रिंग रोड, कोरटीटापाडू, गुन्टूर, आंध्र प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 5 स्थित पेडाकाकानी, निकट 7 वीं किमी०, गुन्टूर, आंध्र प्रदेश में चलाई जा रही भवन निर्माण, साज-सज्जा तथा वृद्धों और अनाथों के घरों हेतु वाहनों की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र एक सौ उनतालीस लाख रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. 324/2003/फ. सं. एन.सी.-240/2003]

ए. जे. मजूमदार, सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2003

S.O. 1372(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.388(E) dated the 19th May, 1997, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 19, for construction of building its furnishing and vehicle for Home for Aged and Orphans at Pedakakani on National Highway No.5, Near 7th K.M., Guntur, Andhra Pradesh, by Vathsalya Ashramam, 103, Mayuri Homes, Ring Road, Kortitapadu, Guntur, Andhra Pradesh, as eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1998-99 and which was extended further vide notification number S.O.868(E) dated the 21st September, 2000 for a period of three years beginning with assessment year 2001-2002;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years ;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of construction of building its furnishing and vehicle for Home for Aged and Orphans at Pedakakani on National Highway No.5, Near 7th K.M., Guntur, Andhra Pradesh which is being carried out by Vathsalya Ashramam, 103, Mayuri Homes, Ring Road, Kortitapadu, Guntur, Andhra Pradesh, at the estimated cost of rupees one hundred thirty nine lakhs only, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the assessment year 2004-2005.

[No. 324/2003/F.No. NC-240/2003]

A. J. MAJUMDAR, Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2003

का.आ. 1373(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 19 मई, 1997 की अधिसूचना सं० सां० आ० 388 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने दी बाम्बे कम्युनिटी पब्लिक ट्रस्ट, रीजेन्ट चैम्बर, पांचवा तल, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई, द्वारा मुम्बई, महाराष्ट्र में विद्यालय अंगीकरण योजना और बालवाड़ी परियोजना को एक परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1998-1999 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 23 पर विनिर्दिष्ट किया था; तथा जिसे बाद में दिनांक 29 मार्च, 2000 की अधिसूचना सं० सां० आ० 303 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दी बाम्बे कम्युनिटी पब्लिक ट्रस्ट, रीजेन्ट चैम्बर, पांचवा तल, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई, द्वारा मुम्बई, महाराष्ट्र में विद्यालय अंगीकरण योजना और बालवाड़ी परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए तीन करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 325/2003/फा. सं. एन.सी.-240/2003]

ए. जे. मजूमदार, सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2003

S.O. 1373(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.388(E) dated the 19th May, 1997, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 23, for School Adoption Scheme and Balwadi Project at Mumbai, Maharashtra, by The Bombay Community Public Trust, Regent Chamber, 5th Floor, Nariman Point, Mumbai, as eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1998-99 and which was extended further vide notification number S.O.303(E) dated the 29th March, 2000 for a period of three years beginning with assessment year 2001-2002;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years ;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of School Adoption Scheme and Balwadi Project at Mumbai, Maharashtra which is being carried out by The Bombay Community Public Trust, Regent Chamber, 5th Floor, Nariman Point, Mumbai, at the estimated cost of rupees three crores only, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the assessment year 2004-2005.

[No. 325/2003/F.No. NC-240/2003]

A. J. MAJUMDAR, Secy. (National Committee)